

The BSE Limited

Department of Corporate Services
Mumbai 400 001.
Scrip Code - 520057

Listing Compliance

National Stock Exchange of India Ltd.
Mumbai 400 051.
Symbol - JTEKTINDIA

Sub : Newspaper notice regarding Special Window for Re-lodgment of physical share transfer requests

Dear Sir,

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, regarding opening special window, please find enclosed herewith copies of the public notice published by the Company in today's 'Business Standard (English) all India Editions and 'Business Standard (Hindi)', Delhi Edition.

The said window shall be available for the instances as per following matrix, prescribed in the said Circular:

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for transfer before April 01, 2019?	Original Security Certificate Available?	Eligible to lodge in the current window?
Before April 01, 2019	No (it is fresh lodgement)	Yes	✓
Before April 01, 2019	Yes (it was rejected/ returned earlier)	Yes	✓
Before April 01, 2019	Yes	No	✗
Before April 01, 2019	No	No	✗

This information will also be available on the website of the Company at <http://www.jtekt.co.in/>


The above is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For JTEKT India Limited

Saurabh Agrawal
Company Secretary

uniqey India's #1 Tax and Compliance App
by JJ TAX
15 Min Free Consultation Call
1800-212-1558
✉ contact@jjfintax.com
🌐 Website: www.uniqey.in



For Business Solutions, Support and Scalable Growth

Financial Fitness with UNIQEY

1.6M+ Happy Users | 4.9 ★ Rating

Income Tax | GST | TDS | Accounting | ROC | Legal Services

250 +
Business Associated150 +
Startup Registered27L +
Queries Resolved95%
Client Retention99%
Customer Satisfaction

₹19Cr+ Taxes Filed | 100% Timely Filing | 99% Customer satisfaction

**JTEKT****JTEKT INDIA LIMITED**

(CIN - L29113DL1984PLC018415)

Regd. Office: UGF-6, Indrapakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi 110001.

Tel.: 011-2331924, 23327205

E-mail: investorgrievance@jtek.co.in; Website: www.jtek.co.in

Special Window for Re-lodgement of Physical Share Transfer Requests

This is to inform the shareholders that, pursuant to SEBI's circular dated January 30, 2026 titled "Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities", a special window will be open from February 05, 2026 to February 04, 2027 for re-lodgement of physical share transfer requests that were originally submitted on or before April 01, 2019 and were rejected, returned, or not processed due to deficiencies. The Window is available for instances permitted under the applicability defined in the aforesaid circular.

Only such previously lodged cases are eligible and, upon successful verification, the shares will be transferred in dematerialized form. Shareholders are requested to submit the original share certificates, transfer deeds, KYC and other prescribed documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. KFIN Technologies Limited (RTA).

For more details, please refer to the SEBI circular at www.sebi.gov.in or contact our RTA at KFIN Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032, India, Email: einward.ris@kfin.com, Toll. Free No. 18003094001

For JTEKT India Limited

Saurabh Agrawal

Company Secretary

Place : Gurugram

Date : 04.02.2026

**PTC India Limited**

CIN: L40105DL1999PLC099328

Regd. Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066

Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200. Fax: 011-41659144

E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com

(Special Window for Transfer and Dematerialisation of physical securities)

In accordance with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, ("SEBI Circular") shareholders of the Company are informed that a special window has been opened for a period of one year from February 05, 2026 to February 04, 2027 for transfer and dematerialisation ("demat") of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019.

Shareholders may please note that this special window is also available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended due to deficiencies in documents/process/otherwise.

The securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferred in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period. The lodger(s) must have Original security certificate and mandatorily provide the necessary document(s) as mentioned in above said SEBI Circular along with original security certificate while lodging the documents for transfer with our RTA.

Please note that cases involving disputes between transferor and transferee will not be considered in this window and may be settled by transferor and transferee through court/NCLT process. Further, securities which have been transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) shall also not be considered under this window for processing. Eligible shareholders who wish to avail the opportunity are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company namely: MCS Share Transfer Agent Limited, at 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 or at e-mail id helpdesk@mcsregistrars.com or contact the Company at cs@ptcindia.com.

Eligible shareholders are requested to submit their transfer requests duly complete in all respects on or before February 04, 2027.

For PTC India Limited

Sd/-

Rajiv Maheshwari

(Company Secretary)

FCS: 4998

Date: 04th February, 2026

Place: New Delhi

IM LUCKNOW'S MANIFEST-VARCHASVA 2025-26 FEBRUARY 6-8TH, 2026

PRESENTED BY AXIS BANK
POWERED BY COCA COLA STUDIO
PRESENTS Cosa Nostra LIVE
CO-PRESENTED BY MMG MINUTES
Bismil ki Mehfil 6TH FEB
7TH FEB PAPON LIVE
SEEDHE MAUT 8TH FEB

Business Standard
Insight Out

KARNATAKA SILK INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Government of Karnataka Enterprise)
3rd & 4th Floors, Public Utility Building, M.G. Road,
Bengaluru - 560 001. Ph: 080-25586550 / 25586402
E-mail: info@ksicsilk.com

No. KSIC/PD/GL-72/01/2025-26 Date: 02.02.2026

Tender for Supply of Gold Lace

(Through KPP Portal only)

Tender is invited through KPP-Portal from reputed Manufacturers for supply of 35,700 marcs of Gold Lace for KSIC, Silk Weaving Factory, Mysuru for a period of one year. Tender Documents, details of the Notification, schedule terms & conditions can be downloaded from <https://kpp.karnataka.gov.in>. The Pre-bid meeting to be held on 23.02.2026 at 3.30 p.m. Last date and time for uploading the tender along with EMD of Rs. 5,00,000/- through KPP-Portal is 02.04.2026 upto 3.00 P.M and the Technical bids will be opened on 04.04.2026 at 03.30 P.M. Further details can be had from the office of the Undersigned during working hours or KPP-Portal helpdesk - 080-46010000, 080-68948777.

Sd/- GENERAL MANAGER (Proc)

DIPR/CP/JA/5291/2025-26

Place : Gurugram

Date : 04.02.2026

VISA STEEL LIMITED

CIN: L51109OR1996PLC004601

Registered Office : 11 Ekamra Kanan, Nayapalli, Bhubaneswar 751 015, Odisha Phone: +(91-674) 255 2479, Fax : +(91-674) 255 4661

Website: www.visasteel.com ● Email ID for registering Investor Grievances: cs@visasteel.com

Extract of Unaudited Standalone/Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31 December 2025 (Rs. in Crore, except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated			
		Quarter Ended		Nine Months Ended		Quarter Ended	Nine Months Ended	
		31 December	31 December	31 December	31 December	31 December	31 December	31 December
1	Total Income from Operations (net)	145.14	119.07	396.07	404.89	145.14	396.07	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(16.53)	(17.27)	(32.43)	(35.85)	(16.53)	(32.43)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(16.53)	(17.27)	(32.43)	(28.35)	(16.53)	(32.43)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(16.53)	(17.27)	(32.43)	(28.35)	(16.53)	(32.43)	
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(16.57)	(17.29)	(32.57)	(28.42)	(16.58)	(32.57)	
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- each)	129.29	115.79	129.29	115.79	129.29	129.29	
7	Other Equity *							
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Basic and Diluted)	(1.42)	(1.49)	(2.79)	(2.45)	(1.42)	(2.79)	

* Other Equity as on 31 March 2025 stands at Rs.(1,476.63) Crore and Rs.(1,476.62) Crore respectively for the Standalone and Consolidated Financial Results.

Notes :

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2025 are available on the Company's website: www.visasteel.com and also available on the Stock Exchange websites, NSE: www.nseindia.com & BSE: www.bseindia.com. The same can be accessed by scanning the QR Code below.

By Order of the Board
For VISA Steel LimitedSd/-
Vishal Agarwal
Vice Chairman & Managing Director
DIN 00121539**NOTICE OF PROCLAMATION**

You A1. Saleem, S/o. Nurul Haq, A3. Shanwar Begum, W/o. Nurul Haq, T-113, Tildar Nagar, Basti, Hasrath Nizamuddin, New Delhi – 13, A4. Kalani & A5 Hakin of New Delhi above 4 accused involved in C1. Flower Bazar P.S. Cr. No. 752/2008 u/s. 489 B & C IPC have been Proclaimed by the MM. Special Court for Fake Stamp Papers and Fake Indian Currency Cases, Egmore, Chennai on 20.01.26 to appear on 20.02.2026 without fail.

The Jammu and Kashmir Bank
Estates & Engineering Department,
Corporate Headquarters, Srinagar,
M. A. Road Srinagar, 190 001 J&K

Online Expression of Interest (e-EOI) For Evaluation of Service Providers providing Software Solutions for Public Fund Management System (PFMS).

RFP Notice along with Complete RFP document outlining the minimum requirements can be downloaded from and BIDS can be submitted on the Banks' e-Tendering Portal <https://jkb.abcprocure.com> w.e.f. February 05, 2026, 16.00 Hrs. RFP Document can also be downloaded from Bank's Official Website <https://jkb.bank.in/>. Last date for submission of Bids is February 19, 2026, 17.00 Hrs. e-EOI Ref. No. JKB/T&D/PFMS/2026/1639 Dated: 04-02-2026

Registered Office : Corporate Headquarters, M.A.Road, Srinagar 190001, Kashmir, India
CIN: L51101K1938SGC000048 ; T : +91(0)94 2481 920-35 ; F : +91(0)94 248 1928 ;
Dated: 04.02.2026 E : info@jkbmail.com ; W : <https://jkb.bank.in>

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ  **punjab national bank**
...ਪਾਰਦੇ ਕਾ ਪ੍ਰੋਕੈਕਟ !

Public Relations & Credit Card Division, HO
Corporate Office : Plot No.04, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075

CORRIGENDUM NOTICE BID NUMBER GEM/2026/B/7137223 FOR EMpanelMENT OF ADVERTISING AGENCIES – PUNJAB NATIONAL BANK

This notice for Corrigendum is issued in reference to the original tender GEM/2026/B/7137223 published on 22.01.2026.

Last Date for Online Bid Submission: 12.02.2026

Deadline for Receipt of Physical Applications: 13.02.2026 (up to 17:00 Hrs)

Submission Address : Assistant General Manager, Corporate Communication Department, 1st Floor, PNB, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110075.

The Corrigendum, along with all original tender details, is available on the GEM Portal and the Bank's official website: <https://pnb.bank.in>. Bidders are advised to visit these platforms regularly for any further updates. All other terms and conditions remain unchanged.

RITES
THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

We Shape What Shapes Lives

(₹ in crores except EPS)

S. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
QUARTER ENDED									
<th colspan



शिवंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उम्मीद
पंजोड़त कार्यालय: शिवंग हाउस, 245, मादाम काम रोड, नरेन्द्रनगर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - 400021.
दूरभाष: 91-22-2202 6666; फैक्स: 91-22-22026905 ई-मेल: cmtoffice@scilal.com
CIN: L70109MH2021GOI37126; वेबसाइट: www.scilal.com

31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का विवरण (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन		
		31.12.2025 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2025 को नौ महीने समाप्त (अलेखापरीक्षित)	31.12.2024 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)
1. परिचालन से कुल आय		2,656	8,093	2,734
2. अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मर्दों से पूर्व)		1,540	4,062	1,382
3. अवधि के लिए कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मर्दों के बाद)		1,540	4,062	1,382
4. अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मर्दों के बाद)		1,113	2,966	1,013
5. अवधि के लिए कुल व्यापक आय अवधि के लिए (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा (कर पश्चात) अन्य व्यापक आय सहित		-	-	-
6. इक्विटी शेयर रुपैयां		46,580	46,580	46,580
7. प्रारक्षण (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षण छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनात्मक में दर्शाया गया है				
8. अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक ₹10/- के) (जारी तथा बंद किए गए परिचालनों के लिए) (₹ में)				
बैंकिंग:		0.24	0.64	0.22
डायल्यूट्रेट:		0.24	0.64	0.22

क. ऊपर वर्णित पाठ, रोबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एवं चर्चेजों में फाइल किए गए तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही/ नौ महीने के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एवं चर्चेज की वेबसाइट पर (www.bseindia.com और www.nseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.scilal.com) पर उपलब्ध है। यह विवरण संलग्न विक्रियालय (वयूआर) छोड़ का रक्केनिंग करने पर भी देखा जा सकता है।

ख. 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (Ind-AS) के मुताबिक हैं।

ग. उपर्युक्त परिणामों को लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा निवेशक मंडल द्वारा विनांक 04 फरवरी 2026 को हुई संरक्षित बैंक में मंगूसी दी गई है।

कृते शिवंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड


कंपनी नं. के. त्यागी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निवेशक,

डीआईएन - 08966904



स्थान: मुंबई
तारीख: 04.02.2026



**KANPUR
PLASTIPACK
LTD**

Providing Solutions for Industrial Bulk Packaging

CIN: L25209UP1971PLC003444
Regd. Office: D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur - 208022
Ph.: +91 512 2691113-6; Fax: +91 512 2691117
Email: secretary@kanplas.com, website : www.kanplas.com

EXTRACT OF THE STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & PERIOD ENDED 31st DECEMBER, 2025

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		31.12.2025 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited	31.12.2025 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited
1.	Total Income from continuing operations	19,522.70	16,369.22	64,271.46	19,709.02	16,401.33	64,311.56
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	1,225.87	923.61	2,389.13	1,395.20	961.91	2,434.66
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) from continuing operation	1,225.87	923.61	1,227.20	1,395.20	961.91	1,277.73
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) from continuing operation	919.13	747.33	1,069.86	1,070.15	782.09	1,110.54
5.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) from discontinuing operation	3.71	-	-	3.71	-	-
6.	Net Profit / (Loss) for the period after tax from continuing & discontinuing operation	922.84	747.33	1,069.86	1,073.86	782.09	1,110.54
7.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	922.84	747.33	1,082.64	1,088.18	777.95	1,119.18
8.	Equity Share Capital	2,401.95	2,248.18	2,248.18	2,401.94	2,248.18	2,248.18
9.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of previous year	-	-	18,277.66	-	-	18,307.81
10.	Earnings per Share (of ₹ 10/-each) (for continuing operations)						
	-Basic	3.90	3.47	4.92	4.54	3.63	5.11
	-Diluted	3.90	3.22	4.92	4.54	3.37	5.11
	(for discontinuing operations)						
	-Basic	0.02	-	-	0.02	-	-
	-Diluted	0.02	-	-	0.02	-	-
	(for continuing and discontinuing operations)						
	-Basic	3.92	3.47	4.92	4.56	3.63	5.11
	-Diluted	3.92	3.22	4.92	4.56	3.37	5.11

Notes: 1. The above results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 04.02.2026 and a Limited Review was carried by the Statutory Auditors of the Company. 2. The figures of previous period/year have been re-grouped/ re-arranged/ or recast wherever found necessary to confirm with the figures of the current year. 3. The above is the extracts of the detailed format of unaudited quarterly financial results as filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015. The full Quarterly/Year to date Financial Results are available on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.kanplas.com.

* Continued Operations

Place : Kanpur

Dated : 04.02.2026



REVENUE
UP BY*
19 %



PAT
UP BY*
23 %



PBT
UP BY*
33 %

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Manoj Agarwal)
Chairman cum Managing Director



SENATOR

CERA
LUXE

CERA

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2025

(₹ In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
		31.12.2025 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	49897.49	140630.40	44927.06
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	5069.61	18406.51	5989.80
3.	Exceptional Item	(1845.97)	(1845.97)	-
4.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	3223.64	16560.54	5989.80
5.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2366.81	12684.97	4585.91
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2505.82	12761.06	4567.20
7.	Equity Share Capital (Face value of ₹ 5/- each)	644.88	644.88	644.88
8.	Other Equity (Excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			
9.	Earnings per equity share (Face value of ₹ 5/- each) (EPS for			